

केन्द्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ -: केमूवी-2/16:737

22 03 2022

विषय: IS 737:2008 के amendment no. 2 के अनुपालन के दिशानिर्देश

यह उपरोक्त विषय के संदर्भ में है।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश अनुपालन हेतु संलग्न है।

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की दिशानिर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करें।

**आदित्य दास
वैज्ञानिक D**

प्रमुख (केमूवी 2)

सभीक्षेत्रीय/शाखा कार्यालय/प्रयोगशालाएँ/MTD/LRMD

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

OurRef:CMD-2/16:737

22 03 2022

Subject: Guidelines for implementation of amendment no. 2 to IS 737:2008

This has reference to the subject mentioned above.

The Competent Authority has approved the enclosed Guidelines for implementation.

All ROs/BOs are requested to ensure the implementation of the above Guidelines with immediate effect.

**(Aditya Das)
Scientist D**

Head (CMD-2)

All ROs/BOs/Labs/MTD/LRMD

CENTRAL MARKS DEPARTMENT-2

Our Ref: CMD-2/16:737

Date: 22 03 2022

Subject: Guidelines for implementation of Amendment no. 2 to IS 737:2008 – (Wrought Aluminium and Aluminium alloy sheet and strip for general engineering purposes - Specification)

1. Amendment no.2 to IS 737:2008 has been published. The amendment shall be implemented with effect from **21 March 2022**.
2. Through this amendment, the cross referred standards for chemical analysis, tensile test and bend test have been updated.
3. The product manual incorporating this amendment is being issued separately.
4. Since there are no changes required in the product specification or the manufacturing and testing facilities on account of this amendment, BOs are requested to take note of the amendment and inform the applicants regarding the implementation of this amendment.

Aditya Das
Sc. D

Head (CMD-2)
DDG (Certification)

AMENDMENT NO. 2 JANUARY 2022

TO

IS 737 : 2008 WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOY SHEET AND STRIP FOR GENERAL ENGINEERING PURPOSES — SPECIFICATION

(*Fourth Revision*)

(*Page 1, clause 2*) — Substitute ‘IS 504 (Part 1 to 12) : 2002 Chemical analysis of aluminium and its alloys (*second revision*) IS 504 (Part 13 to 16) : 2013 Chemical analysis of aluminium and its alloys (*second revision*)’ for ‘IS 504 : 1963 Methods of chemical analysis of aluminium and its alloys (*revised*)’

(*Page 1, clause 2*) — Substitute ‘IS 1599 : 2019/ISO 7438 : 2016 Metallic materials — Bending test (*fourth revision*)’ for ‘1599 : 1985 Method for bend test (*second revision*)’

(*Page 1, clause 2*) — Substitute ‘IS 1608 (Part 1) : 2018/ISO 6892-1 : 2016 Metallic materials — Tensile testing: Part 1 Method of test at room temperature (*fourth revision*)’ for ‘IS 1608 : 2005 Metallic materials — Tensile testing at ambient temperature (*third revision*)’.

(*Page 1, clause 6, line 1, 2 and 6*) — Substitute ‘IS 504 (Part 1 to 12) and IS 504 (Part 13 to 16)’ for ‘IS 504’.

(*Page 1, clause 7.1*) — Substitute ‘IS 1608 (Part 1)/ISO 6892-1’ for ‘IS 1608’.

(*Page 1, clause 7.1.1*) — Substitute ‘IS 1608 (Part 1)/ISO 6892-1’ for ‘IS 1608’.

(*Page 1, clause 7.2.2*) — Substitute ‘IS 1599/ISO 7438’ for ‘IS 1599’.

(MTD 07)